

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

प्रसाधारण

EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उपखण्ड (ii)

PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं० 508]

नई दिल्ली, शुक्रवार, अक्टूबर २७, १९६७/कार्तिक ५, १८८९

No. 508]

NEW DELHI, FRIDAY, OCTOBER 27, 1967/KARTIKA 5, 1889

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में रखा जा सके।

Separate paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate compilation.

MINISTRY OF COMMERCE

ORDER

EXPORT TRADE CONTROL

New Delhi, the 27th October 1967

S.O. 3882.—In exercise of the powers conferred by Section 3 of the Imports and Exports (Control) Act, 1947 (18 of 1947), the Central Government hereby makes the following further amendment to the Exports (Control) Order, 1962, namely:—

In Part A of Schedule I to the said Order, after item No. 6(xlii), the following shall be added:—

“(xliii) Crocodile Skins.”

[Issued from file No. 25(12)/67-E.II.]

[No. E(C)O, 1962/AM(158).]

P. D. KASBEKAR,

Chief Controller of Imports and Exports.

ELECTION COMMISSION, INDIA

ERRATA

The date of issue of Issue No. 499 of the Gazette of India Extraordinary Part II—Section 3—Sub-section (ii), containing the corrigendum to Election Commission's notification No. 56/67-III, dated the 26th September, 1967, should be “New Delhi, Friday, October 20, 1967/Asvina 28, 1889” instead of “New Delhi, Wednesday, October 18, 1967/Asvina 26, 1889.”

(1697)

